



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102023-249205
CG-DL-E-06102023-249205

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4184]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 6, 2023/आश्विन 14, 1945

No. 4184]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2023/ASVINA 14, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4355(अ).—केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सारणी के, स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट स्थानों में चलाए जाने वाले कतिपय क्रियाकलापों के संबंध में सूचना, किसी शत्रु के लिए उपयोगी होगी ;

और, केंद्रीय सरकार यह समीचीन समझती है की ऐसे स्थानों पर अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए विशेष पूर्वावधानियाँ बरती जानी चाहिए।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 2 के खंड (8) के उपखंड (ग) और उपखंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त सारणी के स्तंभ (2) और स्तंभ (3) में यथा वर्णित उक्त स्थानों के परिक्षेत्र और सीमा के साथ उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट स्थान को प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करती है, अर्थात :

सारणी

स्थान का नाम (1)	परिक्षेत्र (2)	सीमा (3)
केंद्रीय सरकार का संगठन	पूर्वी तटीय मार्ग (ECR) के साथ साथ तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर स्थित: थूठुक्कुदी – तिरुचेंदुर – कन्याकुमारी मार्ग (SH 176 का टी टी के मार्ग) पर थूठुक्कुदी जिले के सथान्कुलम तालुका के पदुक्कापत्तू और पल्लकुरिची गाँव तथा तिरुचेंदुर तालुका के मधावंकुरीची गाँव, तमिलनाडु, पिन - 628206	उत्तर: थान्दवंकदु, नारायनापुरम और मधावंकुरीच गाँव । दक्षिण: मन्नार की खाड़ी। पूर्व : मन्नार की खाड़ी, और अमरापुरम और मनापद गाँव । पश्चिम: पदुक्कापत्तू और एल्लुविलाई गाँव ।

[फा. सं. 17015/27/2023-आई एस -1]

अनिल सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2023

S.O. 4355(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that the information with respect to certain activities carried on in the places specified in column (1) of the Table below shall be useful to an enemy;

And, whereas, the Central Government considers it expedient that special precautions shall be taken to prevent access of unauthorised persons to such places.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923), the Central Government hereby declares that the place specified in the column (1) of said Table, a prohibited place for the purposes of the said Act with the locality and boundary of the said places as mentioned in columns (2) and (3) of the said Table namely:

TABLE

Name of the Place (1)	Locality (2)	Boundary (3)
A Central Government Organisation.	Situated in the eastern coast of Tamil Nadu along the East Coast Road (ECR): Thoothukkudi-Tiruchendur-Kanyakumari Road (TTK road of SH 176) at Padukkapathu and Pallakurichi village of Sathankulam Taluk and Madhavankurichi village of Tiruchendur Taluk of Thoothukudi District, Tamil Nadu. PIN – 628206.	North: Thandavankadu, Narayanapuram and Madhavankurichi Villages. South: Gulf of Mannar. East : Gulf of Mannar, and Amarapuram and Manapad Villages. West: Padukkapathu and Elluvilai Villages.

[F.No. 17015/27/2023-IS-1]

ANIL SUBRAMANIAM, Jt. Secy